Aditya Vision Limited

CIN: L32109BR1999PLC008783 | GSTIN: 10AAECA0801E1ZS A 356 Listed Company

आदित्य

आदित्य विज

Date-September 05, 2022

BSE limited P.I. Tower Dalal Street Mumbai-400001

Scrip Code: 540205

Dear Sir

Sub:- Newspaper Advertisement- Disclosure under regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 30 and 47 read with Schedule III Para A of Part A of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisements published in Business Line (English) and Aj (Hindi) on September 04, 2022 in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively "SEBI Circulars"), intimating that 23rd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 04:30 PM IST through Video Conferencing/Other Audio Visual Means.

The Above information is also available on the website of the Company www.adityavision.in.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Aditya Vision Limited

akanksha arya

Akanksha Arya **Company Secretary**

Encl: As Above











Investing ₹3,200 cr, LIC raises stake in JSW Steel to 7% from 5%

Mumbai, September 3

Insurance behemoth Life Insurance Corporation has hiked stake in Sajjan Jindal-led ISW Steel to 7 per cent from 5 per cent with an investment of about ₹3,200 crore as the longterm prospects of India's steel

AGM, which is being circulated for convening the AGM.

quarum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

being sent on your registered email address.

fore-voting

Physical Mode Holding

Demat Holding

Date: September 03, 2022

Place: Patna

sector appears better compared to the global peers.

LIC had acquired 4.86 crore shares or 2.010 per cent from the open market between August 3 and September 1, said JSW Steel in a statement. LIC already owns 12.09-crore shares or 5.002 per cent. The average share price of JSW Steel

ADITYA VISION LIMITED

CIN: L32109BR19999PLC008783 Registered Office: 1st, 2nd & 3rd Floor, Adilya House, M-20, Road No. 26, S. K. Nagar, Patna-810001, Bihar

Tel No. +91-512-2520874/54, Ernalt ras@ad tyavision.in | Website: www.adityavision.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS NOTICE is hereby given that the Twenty Second (23rd) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September 2022 at 04:30 PM through Video Conference

("VC") /Other Audio Visual means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its

General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13,

2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June

2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020

dated December 31, 2020, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No.

02/2022 dated May 05, 2022 (collectively "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of

India ("SEBI") vice its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020.

circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and circular no

SEBIFFO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively "SEBI Circulars"), have

permitted companies to conduct AGM through VC or other audio visual means VC/OAVM, without

the physical presence of the members at a common venue. In compliance with these MCA

Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations

The Notice of the AGM along with the Annual Report FY 2021-22, is being sent only by electronic

mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories.

in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. Members may note that the

Notice of the AGM and Annual Report FY 2021-22, will also be available on the Company's

website www.adityavision.in and website of the Slock Exchange i.e. BSE Limited a

www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VCIDAVM

facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members

attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the

The Company is providing remote e-voting facility ("Riemote e-voting") to all its members to cast

their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM, Additionally, the Company is

providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed

If your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are

In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow

below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details.

Send scanned copy of the following documents by email to Register and

Share Transfer Agent/Company at Investor@cameoindia.com o

a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and

Complete address; b. Scanned copy of the share certificate (front and

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email

For Aditya Vision Limited

Akanksha Arya, Company Secretary

address in your demat account, as per the process advised by your DP

back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aach ar Card

procedures for remote e-voting le-voting is provided in the Notice of the AGM

cattled tyavision, in:-

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will

has gone up from ₹563 in June to₹666 in Âugust.

Though the steel demand and prices are weak globally, the domestic off-take is robust due to the government spending. Moreover, JSW Steel has added a fresh capacity of 5 million tonnes and is expected to benefit from the uptick in demand.

I-T refunds of ₹1.14-lakh crore issued between April and August

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 3

The Income Tax department has issued refunds of over ₹1.14-lakh crore in the first five months of this fiscal

"CBDT (Central Board of

Direct Taxes) issues refunds of over ₹1.14-lakh crore to more than 1.97 crore taxpayers between 1st April, 2022 to 31st Aug, 2022," the I-T Department tweeted.

This include personal and corporate refunds amounting to ₹61,252 crore and ₹53,158 crore, respectively. Recently, the Income Tax department said that the corporate tax collections during

April and July period stood at ₹7.23-lakh crore registered a growth of over 58 per cent compared with the tax collection of FY 2020-21.

LIC mulls deploying bionic agents' to boost digital sales

OUR BUREAU Mumbai, September 3

Life Insurance Corporation of India (LIC) is considering deploying 'bionic agents' to support its agency workforce and boost digital sales capability.

"A strategy of deploying 'bionic' agents by extending tech support in the form of digital tools and analytics to the agency force would surely go a long way in building the core digital sales capabilities and exploring a win-win model where there is a convergence of digital along with the best human qualities of advice and engagement," MR Kumar, Chairman, said in LIC's annual report for FY22.

Focus on agency channel

LIC has a network of 1.3 million agents, a large section of which works in rural areas to ensure a pan India presence across socioeconomic segments.

"The increased focus on IT enablers for the field force would aid higher persistency levels and enhanced customer satisfaction," Kumar said, adding that in FY22 LIC saw a 70 per cent rise in the number of digital transactions.

Over 95 per cent of LIC's individual business, in terms of premium, is sourced through the agency force and less than 3 per cent through the bancassurance channel, per the report.

LIC plans to diversify the channel mix while ensuring that its agents continue to be the "main



MR Kumar, Chairman, LIC

distribution pillars". LIC has positioned itself as the insurer of choice and that is the reason it has been able to maintain its leadership position with around 65 per cent market share despite fierce competition, Kumar said.

Product mix

LIC held a market share of 63.25 per cent in composite first year premium income in FY22.

The insurer has 17 individual participating products, 17 indinon-participating products, 11 group products-including one credit life and one anproduct, and 7 rider

The share of participating business within the overall Individual business, was high with an APE (Annualised Premium Equivalent) at 93 per cent in FY22.

Given that a dominant business mix comes from the participating business, LIC said that it will also look to increase its market share in the non-participating business.

Ranveer Singh invests in **SUGAR Cosmetics**

MEENAKSHI VERMA **AMBWANI**

New Delhi, September 3

Omni-channel beauty company SUGAR Cosmetics on Saturday announced that actor Ranveer Singh has come on board as its newest investor. This is the first start-up investment by the Bollywood star.

The company said that the partnership with "the youth icon" is expected to create new pathways for customer acquisition, especially with Gen Z and millennial audiences.

Vineeta Singh, Co-founder and CEO, SUGAR Cosmetics, said, "Ranveer's personality of being bold, quirky, and vibrant makes the partnership a natural fit."

"We are delighted to have Ranveer on board as we look forward to reinforcing our brand connect with consumers. This will help supercharge our growth trajectory as we continue scaling SUGAR aggressively to build it into a large beauty brand," added Kaushik Mukherjee, founder and COO, SUGAR Cosmetics.

Singh's investment announcement comes on the heels of the company's \$50-million Series D fund-raise led by the Asia fund of L Catterton. The round also saw participation from other private equity funds and existing investors -A91 Partners, Elevation Capital and India Quotient.



WARSHIPPED BY OUR **ARMED FORCES!**

India set to become the third largest economy by 2029: SBI

Mumbai, September 3

After surpassing the UK as the fifth largest economy, India is likely to get the tag of the third largest economy by 2029, according to an assessment by the State Bank of India's Economic Research Department (ERD).

This is a movement of seven places upwards since 2014 when India was ranked the 10th largest economy.

"India should surpass Germany in 2027 and most likely Japan by 2029 at the current rate of growth. This is a remarkable achievement by any standards," said Soumya Kanti Ghosh, Group Chief Economic Advisor, SBI.

According to the ERD, the global share of India's GDP is now at 3.5 per cent against 2.6 per cent in 2014 and is likely to cross 4per cent in 2027, the current share of Germany in global GDP. The ERD noted that in the coming days India is likely to be the beneficiary as China slows down in terms of new investment intentions.

Ghosh emphasised that global tech major Apple's recent decision to shift part-

production of its flagship iPhone 14 model for worldwide shipping from India, with a time lag of just a few weeks post its slated launch on September 7, bears testimony to such an optimism.

GDP growth rate

Referring to India's O1FY23 GDP growth of 13.5 per cent, he said that at this rate, India is likely to be the fastest growing economy in the current fiscal.

"Interestingly, even as estimates of India's GDP growth rate for FY23 currently ranges from 6.7 per cent to 7.7 per cent, we firmly believe that it is immaterial. In a world that is ravaged by uncertainties, we believe 6-6.5 per cent growth is the new normal," Ghosh said.

BusinessLine

BusinessLine

Disclaimer: Readers are requested to verify
& make appropriate enquiries to satisfy
themselves about the veracity of an
advertisement before responding to any
published in this newspaper. THG
PUBLISHING PVT LTD, the Publisher &
Owner of this newspaper, does not vouch
for the authenticity of any advertisement
or advertiser or for any of the advertiser's
products and/or services. In no event can
the Owner, Publisher, Printer, Editor,
Director/s, Employees of this
newspaper/company be held
responsible/liable in any manner
whatsoever for any claims and/or damages
for advertisements in this newspaper. for advertisements in this newspape

BusinessLine



Here's to the dreamers, doers and champions of change.

The prestigious BusinessLine Changemaker Awards is here once again to honour the ones who dared to make a difference and bring positive change in our society.

Together, let us celebrate the changemakers.

Venue: ITC Maurva, New Delhi Date: September 9, 2022 Time: From 5:30 pm onwards Entry by invitation only



Watch the event live at www.chehindubusinessline.com or Scan the QR code



BusinessLine





Presenting Futuer











Healthcare Parener



Associate Partner

CM YK















ISSN 0971 - 7528

'संस्कृत' भाषाओं की 'महारानी', 'हिन्दी' बहुरानी

जयंती पर साहित्य सम्मेलन ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

पुस्तक-चौदस मेला के तीसरे दिन डा फादर कामिल बुल्के जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हए, सम्मेलन अध्यक्ष डा अनिल सलभ ने कहा- वेल्जियम के ईसाई फादर और संस्कृत, हिन्दी और तुलसी के महान भक्त डा कामिल बल्के ने भाषा के संबंध में संसार को एक बड़ा सच बताया था। उन्होंने कहा था कि ' संस्कत भाषाओं की 'महारानी', 'हिन्दी' बहुरानी और अंग्रेजी' नौकरानी है। उन्होंने संस्कृत में स्नातकोत्तर और हिन्दी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। रामकथा की उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध किया था और यह निष्कर्ष दिया था कि महर्षि बाल्मीकि विरचित 'रामायण' के पात्र श्री राम काल्पनिक नहीं ऐतिहासिक हैं।

यह बातें, शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि बिहार से डा बुल्के का अत्यंत गहरा संबंध था। वे एक स्नातक अभियन्ता थे। 1936 में जब वे भारत आए तो पहले बंबई पहुँचे किंतु कुछ ही दिनों के बाद वे बिहार के गुमला आ गए। वहीं उन्होंने हिन्दी, ब्रज और अवधि भाषा सीखी। तुलसी के मानस साहित उनके सभी ग्रंथ पढ़े। वही उन्हें संस्कृत सीखने की प्रेरणा मिली और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर किया। बाल्मीकि रामायण, वेद, साहित्यकारों को लिखने और बोलने में सावधानी

तो अपनी गौरवशाली प्राचीन ज्ञान और परंपरा को भूल ही चुका है, जिसका स्मरण दिलाना आवश्यक है। तभी से उन्होंने एक व्रत के रूप संस्कृत और हिन्दी का प्रचार आरंभ किया।हिन्दी तो नई पीढ़ी कैसे शुद्ध बोलेगी ?

सम्मेलन के उपाध्यक्ष डा शंकर प्रसाद, कवि



एक विदेशी और एक दूसरे धर्मे के गुणी पुरोहित विष्णुपुरी, चंदा मिश्र, डा मनोज गोवर्द्धनपुरी, होने के बाद भी उन्होंने जो भारत के ज्ञान की उच्च चित रंजन भारती, सदानंद प्रसाद ने भी अपने परंपरा के पुनरोत्थान के लिए जो किया वह अद्गितीय और अतिप्रणम्य है।

समारोह के मुख्य अतिथि और बिहार लोकसेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज् अहमद करीमी ने कहा कि हिन्दी प्रेम की भाषा है। सभी भारतियों को इससे प्रेम करना चाहिए।हिन्दी के

विचार व्यक्त किए।

धन्यवाद-ज्ञापन प्रबंधमंत्री कृष्णरंजन सिंह ने आज विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान-

प्रतियोगिता आयोजित हुई,जिसमें 'हिन्दी के साहित्यकार' विषय पर विद्यार्थियों ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिए। इस प्रतियोगिता में कौलेज दु:खदमन सिंह आदि प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

स्कुल, जेठुली, किलकारी, बिहार बाल भवन, सैदपुर, रवींद्र बालिका विद्यालय,पटना, सुदर्शन सेंट्रल स्कूल, पटना सिटी, सर गणेश दत्त पाटलिपुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटना, इसलामिया टी टी बी एड कौलेज. पटना के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण. रजत और कांस्य-पदक के साथ ऋमश: एक हजार रूपए. सात सौ रूपए तथा पाँच सौ रूपए की पुरस्कार राशि, पखवारा के समापन-सह-प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा।

पटना महानगर

2 सितम्बर से आरंभ हए 'दस दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर' के दूसरे दिन आज संस्कृत में वार्तालाप का परिचय खंड संपन्न हुआ, जिसमें शिविर के मुख्य आचार्य डा मुकेश कुमार ओझा ने सरल पंक्तियाँ बोलकर परिचय लेने-देने

इस अवसर पर, दा ध्रुब कुमार, प्रो सुशील झा, डा सुषमा कुमारी, दा वीणा कुमारी, डा नागेश्वर प्रसाद यादव, अर्चना भारती, नरेंद्र झा, नेहाल कुमार सिंह 'निर्मल', रामाशीष ठाकुर, राम प्रसाद ठाकुर, डौली कुमारी, उत्तर उत्तरायण, कीर्त्यादित्य, अमन वर्मा, अमित कुमार सिंह, रवींद्र कुमार सिंहा, अजित कुमार बाबा,

निगम द्वारा लगातार दो पालियों में कुडा उठाव, डोर ट्र डोर सफाई एवं मशीनों के द्वारा शहर की सफाई की जा रही है। बरसात के कारण यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कचरे के कारण बीमारियां और जहां सफाई कर्मी तत्परता से शहर को स्वच्छ रखने में रातभर अपना योगदान देते हैं। वहीं दूसरी तरफअन्य हड़ताली सफाई कर्मियों द्वारा शहर को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोडा जा रहा है। शनिवार को रात्रि सफाई कर्मियों से मारपीट करने के आरोप में पाटलिपत्र अंचल के 4 नामित एवं कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। इसके साथ ही कंकडबाग अंचल में भी एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया गया। पाटलिपुत्र अंचल में रात्रि सफ ाईकर्मियों से मारपीट की गई।4 से 5 लोगों के साथ मारपीट हुई है जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पटना नगर निगम क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर कई कर्मचारी संघ हड़ताल पर है। परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ रखने के लिए तत्परता से युद्ध स्तर पर सफाई कराई जाती है।स्वयं अन्य सपाई कर्मियों द्वारा ही शहर को गंदा कर देने के कारण इस कार्य में कठिनाई देखने को मिलती है।

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के लिए 30 तक आवेदन

पटना। 2022-23 शैक्षणिक सत्र के राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के सफल लाभार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके साथ ही एनएमएमएसएस परीक्षा 2019, 2020 और 2021 में सफल और अर्हताधारक छात्र-छात्राओं को एनएसपी पर वर्ष 2022-23 की छात्रवत्ति के लिए आवेदन का रिन्यूअल करना है।

संबंधित स्कूल के प्राचार्य और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन का समय पर वेरीफिकेशन करना है। इसके लिए एससीईआरटी के निदेशक सज्जन आर ने सभी डीईओ और डीपीओ (माध्यमिक शिक्षा) को पत्र भेजा है। जिला के शिक्ष

कि निर्धारित समय पर आवेदन और

शपथ पत्र संख्या 22/27.8.2022 (कटिहार न्यायालय) एतद् द्वारा घोषणा करता हं कि मेरे छोटे पत्र मो शहबाज को मैं अपने सभी चल अचल संपत्ति एवं अधिकारों से भी प्रकार का अनैतिक या गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो इससे मेरा या मेरे परिवार का कोई सरोकार नहीं

शेख सरफुद्दीन पिता - शेख मेहर अली ग्राम - छतिया, पो. भोगा



केन्द्रीय विद्यालय, आरा जीरो माईल, आरा, भोजपुर 802302

खली निविदा हेतु आमंत्रण

विद्यालय में प्रिंटिंग (प्रश्न पत्र, मेडिकल कार्ड, मॉनिटर डायरी आदि) सेवा कैंटीन सेवा तथा टेंट (लाइट, पंडाल, कुर्सी आदि), बिल्डिंग मटेरियल (सीमेंट बालू, छड़, गिट्टी आदि) के लिए खुली निविदा के तहत एच्छुक एवं योग फर्म के द्वारा मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

Established by an Act of Parliament in 2013

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र केन्द्रीय विद्यालय के www.arah.kvs.ac.in के वेबसाइट से डाउनलोड कर 23.09.2022, 12.00 बजे तक जमा करें, दिनांक 23.09.2022, 2.00 बजे निविदाएं खोली जायेंगी

2022 हेतु प्रवेश अधिसूचना

यह विश्वविद्यालय के निम्न पाठ्यक्रमों के प्रति प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन

करते हुए 22 जून, 2022 तथा 30 जुलाई, 2022 को आरजीएनएयू वेबसाईट में

I . जीएमआर विमानन अकादमी के सहयोग में **पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोम**

इन एअर पोर्ट आपरेशन (पीजीडीएओ)/पीजीडीएओ पाठ्यक्रम में

वेश्वविद्यालय कैम्पस में 12 महीने की क्लासरूम प्रशिक्षण तथा जीएमआर एअरपोर्ट

Ⅱ . लाजिस्टिक्स सेक्टर स्किल परिषद के सहयोग से विमानन सेवाओं

एवं **कार्गों में बैचलर ऑफ मैनेजमेण्ट स्टडीज (बीएमएस**)। बीएमएस ततीय

वर्ष में अपरेन्टिसशिप के दौरान लगभग रू. 9000/- के स्टाईपेन्ड सहित एक तीन

 विश्वविद्यालय के पास 90 प्रतिशत से अधिक नियुक्ति रिकार्ड है। आरजीएनएयू के विद्यार्थी भारत के विभिन्न एअरपोर्ट्स जैसे - दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुआहाटी, मंगलुरू, सिन्धुदुर्ग, गोवा इत्यादि तथा एअरलाईन्स जैसे- इन्डिगो, विस्तारा, फेडएक्स, कतर इत्यादि

उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाईन आवेदन के प्राप्ति हेतु अन्तिम तिथि

4. पात्रता, चयन मानक से सम्बन्धित अधिक विवरण तथा अन्य विवरणों हेतु

आवेदकगण विश्वविद्यालय की वेबसाईट https://www.rgnau.ac.in

देखें। इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त शृद्धि पत्र सिर्फ आरजीएनएयु के

एतदद्वारा 21 सितम्बर, 2022 को 17.00 बजे तक बढाई जाती हैं।

विज्ञापन सं. आरजीएनएयू /5141/4/प्रशा॰/755

प्रकाशित हमारे पर्व विज्ञापन के सन्दर्भ में हैं:

वर्षीय अपरेन्टिसशिप सन्निहित डिग्री प्रोग्राम होगा।

रर 6 महीने की ईन्टर्निशप शामिल होगा।

01 अगस्त, 2022

क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में भोजपुर के गौतम अव्वल

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना । बिहार विद्यालय परीक्षा सिमति की राज्यस्तरीय ऋाँसवर्ड प्रतियोगिता में भोजपुर के गौतम को प्रथम, शेखपुरा की आद्या कश्यप एवं नीतीश कुमार द्वितीय तथा मुंगेर के राजू कुमार को तृतीय स्थान मिला है। मधेपुरा की मुस्कान कुमारी एवं सिम्मी कुमारी चौथे, नवादा के निशांत कुमार एवं प्रशांत कुमार पांचवें, मुजफ्फरपुर के राहुल कुमार एवं विक्की कुमार छठे, शिवहर के आशिक राज एवं गौरव कमार सातवें. पटना की अनष्का कमारी एवं रोहन पाठक आठवें. समस्तीपुर के प्रवीण कुमार एवं नूर आयशा खातून नौवें तथा कैमूर के अनुराग कुमार एवं आशुतोष सिंह दसवें स्थान पर रहे हैं।

सभी विजेताओं को पुरस्कारस्वरूप पांच हजार रुपये नकद एवं ऋॉसवर्ड पस्तक के सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समितिके हाथों प्रदान किये गये. राज्यस्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को यहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक भवन में किया गया। इसमें प्रत्येक जिले की पहली टीम ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा सिमति की राज्यस्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई देते हए कहा कि यह आयोजन छात्र-छात्राओं के लिए लाभकारी है। इससे उनमें चुनौती की भावना का विकास होता है। क्षमतावर्धन होता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनन्द किशोर ने विजेताओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों में एनालिटिकल एवं एक्सट्रा कैरकुलर एक्टिविटीज को विकसित करने के लिए क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

लाठीचाजे करनेवाले एडाएम पर काररवाई शुरू बढ़ रहा था। उसे देख उसके पीछे सैकडों की संख्या

पटना (आससे)। लोकतंत्र में रहकर लाठीतंत्र से शासन नहीं चलाया जा सकता। पटना के एडीएम केके सिंह के कारनामें की जांच कर रही टीम ने को डाकबंगला चौराहे पर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान एडीएम विधि व्यवस्था के के सिंह द्वारा हाथ में तिरंगा लिए एक अभ्यर्थी की पिटाई मामले में जांच कमेटी ने उन्हें दोषी करार दिया है। जांच कमेटी अधिक बल का प्रयोग किया, जो नहीं होना चाहिए

जांच कमेटी ने एडीएम की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब हाथ में तिरंगा लिए छात्र प्रदर्शन कर रहा था तो उस समय उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह को सौंप दी है।रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने एडीएम को शोकॉज जारी किया है।

घटना के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की थी। इसमें पटना के डीडीसी और एसपी सिटी शामिल थे। कमेटी ने टीईटी अभ्यर्थियों के है कि हाथ में तिरंगा लिए अभ्यर्थी ने पुलिस द्वारा अलावा पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट एवं एडीएम का

आहार के बारे में बताया। शिशु का

स्वास्थ्य पोषण पर ही निर्भर करता है।

प्रथम वर्ष शिशु के शरीर एवं स्वास्थ्य

की नींव है। इस काल में शिशु का

अपर्याप्त पोषण होने का असर आने

ध्यान दिया जाना चाहिये।माताओं के

के नाम खास तौर पर उल्लेखनीय हैं।

अलग-अलग बयान दर्ज किया। घटनास्थल पर मौजूद ज्यादातर अधिकारियों ने जांच कमेटी से कहा



लगाए गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था। वह आगे

में अभ्यर्थी राजभवन की तरफ बढ़ने लगे। मौके पर मौजूद एडीएम ने विधि व्यवस्था ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। अभ्यार्थियों से घिरे एडीएम को कुछ हो ना जाए, यह देख वहां मौजूद पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भी बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए। इस घटना से क्रोधित होकर एडीएम ने उस अभ्यर्थी की पिटाई

करनी शुरू कर दी। जांच कमेटी ने दो बिंदुओं पर अपना मंतव्य

दिया है। पहला, एडीएम को अत्यधिक बल प्रयोग नहीं करने की बात कही गई है। दूसरा, रिपोर्ट में कहा गया है कि जब अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लिए हुए था तो ऐसी स्थिति में उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हालांकि जांच कमेटी को दिए बयान में एडीएम ने कहा है कि उनकी मंशा तिरंग को अपमानित करने की नहीं थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिलाधिकारी की ओर से एडीएम से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि आगे की कार्रवाई

पक पाष्ट्रिक आहार, साखने को उमडीं महिलाएँ

जेडी वीमेस कॉलेज गृहविज्ञान विभाग का जागरूकता अभियान (आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। स्थानीय जे. डी. वीमेंस **कॉलेज के स्नातकोत्तर गृहविज्ञान**

के लिए महिलाएं उमड़ पड़ीं। राष्ट्रीय पोषण समाह के तहत जे डी. वीमेंस कॉलेज के स्नातकोत्तर



विभाग द्वारा शास्त्रीनगर की स्लम गृहविज्ञान विभाग द्वारा शास्त्रीनगर की कॉलनी में शिशुओं एवं माताओं के लिए पौष्टिक आहार पकाये गये। जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। पौष्टिक आहार उन्हें खिलाये भी गये। विभागाध्यक्ष डॉ. कमकम कमारी ने पौष्टिक आहार पकाने की विधि सीखने महिलाओं को एक से तीन वर्ष के

बीच पौष्टिक खिचड़ी, सूजी की खीर एवं कस्टर्ड जैसे पौष्टिक आहार पकाये गये।ये आहार बच्चों एवं माताओं को खिलाये भी गये। पौष्टिक आहार की कमी से होने वाली बीमारियों एवं समस्याओं की जानकारी भी उन्हें दी गयी। इस कार्यऋम के प्रति महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। इसमें स्नातक प्रथम खंड, आनर्स तथा स्नातकोत्तर है। द्वतीय एवं तृतीय सेमेस्टर की छात्राओं स्लम कॉलनी में शनिवार को की सिक्रिय सहभागिता रही। इस अवसर पर मौजुद शिक्षिकाओं में डॉ. ममता कमारी, शोभा सिंह एवं भाग्यश्री

इस्कॉन टेम्पल बद्ध मार्ग में आज ४ सितम्बर को मध्याह्न १२ से अपराह्न दो बजे तक श्री राधाष्ट्रमी आशय की जानकारी देते हुए इस्कॉन के प्रवक्ता नंद गोपाल वाले दिनों में दिखता है। इसलिए शिशु दास ने कहा कि मंदिर उदघाटन के साथ माता के पोषण पर भी विशेष के बाद यह सौभाग्य मिला है।

> शृंगार पूजन, हरिनाम संकीर्तन, सत्संग एवं प्रसाद आदि का आयोजन होगा। राधाष्ट्रमी में आनेवाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा के प्रबंध किये गये हैं।रविवार को राधाष्ट्रमी महोत्सव होने से श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ने की संभावना

> राधाशक्ति पर सारगर्भित सत्संग करेंगे मंदिर के अध्यक्ष स्वामी कृष्ण कृपादास इस्कॉन के कीर्तन मंडली का हरिनाम संकीर्तन होगा।

हत्या के तीन अभियुक्तों को

पटना। पटना के एडीजे-१७ अभिषेक रंजन की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ३०-३० हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। सजायाप्ता अभियुक्तों में सुबोध कुमार बनाने पर अंतत: उसने गोली मारकर व संतोष कुमार दोनों सगे भाई निवासी हत्या कर दिया। न्यायालय में महंगूपुर थाना जानीपुर पटना व दीपक अभियोजन द्वारा कुल सात गवाही से कुमार निवासी बभनपुरा थाना गवाही करवायी गयी। अदालत ने फुलवारीशरीफ शामिल हैं। इसी मामले में एक अभियक्त सिंह जो कि अवयस्क भादवि की धारा ३०२/३४ व २७ आर्म्स था तो उसका मामला अलग कर जुविनाइल कोर्ट में भेज दिया गया है। उक्त मामला फुलवारी थाना कांड संख्या ९२६/१८ से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों ने हरवे-हथियार से लैश होकर ९ नवम्बर २०१८ को जानीपुर निवासी हेमन्त कुमार को गोली मारकर हत्या उस समय कर दिया जब वह अपने घर के बाहर बैठे थे।गोली मारने वाले दोनों भाई सुबोध व संतोष था।

उक्त घटना पर मृतक की बेटी

सलोनी कुमारी के फर्दबयान पर मामला दर्ज किया गया है। हत्या का कारण यह था कि सुबोध ने मृतक हेमन्त कुमार से तीन लाख रुपये कर्ज लिया था तथा वह मृतक के द्वारा बार-बार मांगने पर भी पैसा नहीं दे रहा था। मृतक के दबाव अभियुक्त सुबोध व संतोष कुमार को

कारावास ३०-३० रुपये अर्थदंड a अभियुक्त दीपक में 307/38 आजीवन व २० जुर्माना की सजा

कार्यालयीय वेबसाईट में प्रकाशित किया जायेगा।

सीबीसी 03110/12/0011/2223

फुरसतर्गज, अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229302

ADITYA VISION LIMITED

CIN: L32109BR19999PLC008783

Registered Office: 1st, 2nd & 3rd Floor, Aditya House, M-20, Road No. 26, S. K. Nagar, Patna-800001, Bihar Tel No. +91-612-2520874/54, Email: cs@adityavision.in | Website: www.adityavision.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the Twenty Second (23rd) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 30th September 2022 at 04:30 PM through Video Conference ("VC") /Other Audio Visual means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM, which is being circulated for convening the AGM. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its

General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and circular no. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively "SEBI Circulars"), have permitted companies to conduct AGM through VC or other audio visual means VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM

The Notice of the AGM along with the Annual Report FY 2021-22, is being sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report FY 2021-22, will also be available on the Company's website www.adityavision.in and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("Remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedures for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM

f your email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining the Annual Report and login details for e-voting:

Physical Mode Holding

Share Transfer Agent/Company at investor@cameoindia.com of cs@adityavision.in:a. Signed request letter mentioning name of Shareholder, Folio No. and

Send scanned copy of the following documents by email to Register and

Complete address; b. Scanned copy of the share certificate (front and back) and c. Self-attested copy of PAN Card and Aadhar Card

Demat Holding

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP

For Aditya Vision Limited

पटना (आससे)। शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या के अवसर पर कल संध्या बजे होटल मैत्रया इन,बोरिंग रोड,पटना के हॉल में शिक्षा,खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 171 प्राचार्य,प्राचार्या एवं शिक्षकों को बिहार विधान परिषद में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षकों के विधान पार्षद प्रो.नवल किशोर यादव द्वारा सम्मानित किया जायेगा। इस बात की जानकारी देते हुए आयोजन सचिव गौरी शंकर ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बिहार विधान परिषद सदस्य प्रो.नवल किशोर यादव

जागरूकता के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिए गए हैं। इस महीने विभिन्न तिथियों में अलग-अलग आयोजन करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक पीएम पोषण सतीश चंद्र झा ने सभी डीईओ और डीपीओ (पीएम पोषण योजना) को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण, जल संरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए पारंपरिक भोजन के लिए

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पोषण माह के तहत 30 सितंबर तक स्कूली बच्चों,

किशोरियों और महिलाओं के साथ स्थानीय लोगों में पोषण

पटना। बच्चों को पढाई के साथ पोषण जरूरी है। राष्ट्रीय

लिए जागरूकता अभियान या विद्यालय शिक्षा समितियों की बैठक में पोषण पर चर्चा, स्थानीय भोजन सहित अन्य पोषण विषयों पर चर्चा, पोषण वाटिका के संचालन, वृद्धि और स्थापना पर चर्चा सरीखे आयोजन होंगे। 11 से 17 सितंबर तक विद्यालयों में आईसीडीएस के स्थानीय पदाधिकारियों के सहयोग से पोषण मेला का आयोजन, कुपोषण या पोषण पर केंद्रित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व चित्रकारी प्रतियोगिता, बच्चा व शिक्षा की भावना दर्शाते हुए पोषण माह के दौरान विद्यालय में छात्रों द्वारा पोषण प्रतिज्ञा की गतिविधि, छात्रों को जल प्रबंधन के लिए जागरूक करना और इस पर विज्ञान मेले का आयोजन, किशोरियों के लिए स्वास्थ्य गतिविधियों करवाने में मदद करना, पोषण पखवाडा के दौरान आयोजित का आयोजन होगा। 18 से 24 सितंबर तक प्रखंड स्तरीय

पोषण पर केंद्रित विद्यालय स्तर पर प्रभात फेरी, स्वच्छता के पदाधिकारियों की भागीदारी से ग्राम सभा स्थल पर मुखिया की उपस्थिति में किशोरियों. महिलाओं और बच्चों को पोशण को मजबूत करने के संबंध में विचार रखने के लिए कहना, जागरूकता अभियान की श्रृंखला में समूह चर्चा, व्यवहार परिवर्तन सामग्री. स्थानीय पौष्टिक भोजन प्रदर्शन. अंडा और हरी साग-सब्जियों पर चर्चा, सूक्ष्म, पोषक तत्व, प्रोटीन एवं विटामिन की जानकारी देने संबंधी आयोजन होंगे। 25 से 30 सितंबर तक विद्यालय स्तर पर बच्चों को पोषण के लाभ और हानि संबंधी जानकारी के साथ अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई गतिविधियों पर समीक्षात्मक बैठक होगी।

गराबा के सवाल के बिना संघर्ष नहीं हो सकता :

जागरूकता को 30 तक चलेगा स्कूलों

आयोजित किया गया।समारोह का आयोजन अभियान सांस्कृतिक मंच 'और' भगत सिंह विचार मंच ' के संयुक्त तत्वावधान में किया

इस किताब में समाज को बदलने की जद्दोजहद आपको कदम-कदम पर मिलेगा। इस किताब का आवरण पृष्ठ प्रतीक है मुक्ति का।यह किताब नयी राह भी दिखाता है एवं

पाठक पर कुछ थोपता नहीं है, बल्कि उनसे सामाजिक कार्यकर्ता राजकमार शाही की 🏻 बात करता है। इसकी भाषा बहुत ही सहज पहली पुस्तक 'उम्मीद जिंदा है ' का सरल है। इसके सारे लेख एक दूसरे से किसी लोकार्पण समारोह जनशक्ति भवन में न किसी रूप में जुड़े भी हैं। सारे लेखों में परिवर्तन का आह्वान दिखायी पड़ता है। यह किताब जीवन के लिए है।

मगध विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति कार्यानंद पासवान ने कहा कि शिक्षाविद् अनिल कुमार राय ने कहा कि समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की

पुस्तक का सार है कि संघर्ष के बिना कुछ अध्याय आपको आकर्षित करेंगे। यह

किताब यवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद यह सभी के विरुद्ध आवाज है। बिहार

महिला

होगा।स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण मसलों तक यह किताब उठाता है। समाज का नेतृत्व करनेवाली महिला नेताओं की भी चर्चा इस किताब में है। प्रसिद्ध कवि अरुण कमल ने कहा कि वैचारिक लेखों की आज जरूरत है। इन्होंने कवियों पर भी लिखा है। एक लेख में लेकिन इंडोनेशिया में छह लाख कम्युनिस्ट मार दिये गये, उसकी बात कोई नहीं करता।

संघर्ष नहीं हो सकता। बगैर ईमानदारी के लड़ाई नहीं हो सकती। यह किताब एक उम्मीद की तरह है। वैचारिक संघर्ष बहत जरूरी है। पटना कालेज के प्राचार्य प्रो. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह किताब सच में एक उम्मीद जगाती है। निराश नहीं होना चाहिए।अकेले भी आप बहुत कुछ बदल के होते हैं।राजकमार शाही ने बहत ही अच्छा काम किया है। यह किताब वैचारिक

लेखक ने स्तालिन की भी तारीफ की है। सकते हैं। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता अरुण सिर्फ स्तालिन की किमयों पर बात होती है, मिश्र ने कहा कि छोटे-छोटे लेख ज्यादा काम

Place: Patna

Date: September 03, 2022

Akanksha Arya, Company Secretary

बात इस किताब में है। साहित्यकारों और क्रांतिकारियों. समाज सधारकों पर कई लेख हैं इस किताब में।आर्थिक असमानता पर भी कहा कि किताब का शीर्षक बहुत ही इस किताब में चिंता जाहिर की गयी है।इस सकारात्मक है। इस किताब के छोटे-छोटे जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, कुछ नहीं